

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध, राजस्थान, जयपुर  
जनसम्पर्क कार्यालय

प्रेस नोट

एटीएस व आयुक्तालय जयपुर के पांच पुलिसकर्मियों सहित प्रदेश के  
9 पुलिसकर्मियों को मिला आऊट ऑफ़ टर्न प्रमोशन



(बांये से दांये:- संदीप अहलावत, सुरेन्द्र सिंह एवं संजय कुमार शर्मा )

जयपुर 11 अगस्त । महानिदेशक पुलिस श्री अजीत सिंह ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य किये जाने के फलस्वरूप एवं पदोन्नति कमेटी की अभिशंषा पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध राज्य के 9 पुलिसकर्मियों को उनके आगामी पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की है ।

महानिदेशक पुलिस श्री सिंह ने प्रदेश के जोधपुर ग्रामीण जिले के एक, एटीएस के तीन, आयुक्तालय जयपुर के 2, आयुक्तालय जोधपुर के एक तथा हनुमानगढ़ जिले के 2 पुलिसकर्मियों को उनकी सराहनीय सेवाओं तथा ड्यूटी के दौरान साहसिक प्रदर्शन के लिए गैलेंट्री पदोन्नति प्रदान की है ।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध श्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि महानिदेशक पुलिस श्री अजीत सिंह ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर एटीएस जयपुर के सहायक उप निरीक्षक श्री संदीप अहलावत को उप निरीक्षक व कानिस्टेबल सर्वश्री संजय कुमार शर्मा व सुरेंद्र सिंह को हैड कांस्टेबल तथा जोधपुर ग्रामीण जिले के हैड कांस्टेबल श्री अमानाराम को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है ।

श्री सिंह ने बताया इसी प्रकार आयुक्तालय जयपुर के कांस्टेबल सर्वश्री प्रेम चंद व झाबरमल, आयुक्तालय जोधपुर के कांस्टेबल श्री श्रवण कुमार तथा जिला हनुमानगढ़ के कांस्टेबल सर्वश्री पुरुषोत्तम व भूरा लाल को विशेष पदोन्नति प्रदान कर उनके विशेष कार्यों के लिए विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है ।

राही/मनीष/\_\_\_/2017

नोट:- उक्त प्रेस नोट [www.rajasthan.police.gov.in](http://www.rajasthan.police.gov.in) पर भी उपलब्ध है ।